



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 चैत्र 1947 (श10)  
(सं0 पटना 200) पटना, मंगलवार, 25 मार्च 2025

सं० एल/एच०जी०-14-23/2023-3096

गृह विभाग  
(विशेष शाखा)

संकल्प

17 मार्च 2025

श्री अनिल कुमार सिंह, तत्कालीन जिला समादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी, भोजपुर अतिरिक्त प्रभार केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, बिहटा सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध नियम विरुद्ध कार्य करने, वित्तीय अनियमितता, आदेशोल्लंघन, स्वेच्छाचारिता, मनमानेपन एवं कर्तव्यहीनता के लिए महानिदेशक-सह-महासमादेष्टा का कार्यालय, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ, बिहार, पटना के पत्रांक-8775, दिनांक-28.12.2023 द्वारा प्रपत्र 'क' उपलब्ध कराते हुए विभागीय कार्यवाही करने की अनुशंसा की गई है।

2. उक्त के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत विभागीय पत्रांक- 785, दिनांक-15.01.2024 द्वारा श्री अनिल कुमार सिंह के विरुद्ध गठित आरोप प्रपत्र 'क' की प्रति संलग्न कर भेजते हुए पत्र प्राप्ति के एक पक्ष (15 दिनों) के अंदर बचाव का लिखित अभिकथन विभाग को प्रस्तुत किये जाने का निदेश श्री सिंह को दिया गया।

3. श्री अनिल कुमार सिंह द्वारा महानिदेशक-सह-महासमादेष्टा का कार्यालय, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ, बिहार, पटना के पत्रांक-21/गो०, दिनांक-21.03.2024 द्वारा आरोप प्रपत्र 'क' के विरुद्ध बचाव का लिखित अभिकथन बिन्दुवार विभाग को उपलब्ध कराया गया।

4. विभागीय पत्रांक-3107, दिनांक-12.04.2024 द्वारा श्री अनिल कुमार सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण की छायाप्रति महासमादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना को भेजते हुए उक्त स्पष्टीकरण पर बिन्दुवार मंतव्य विभाग को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

5. इसी दौरान श्री अनिल कुमार सिंह दिनांक-31.03.2024 को उप महासमादेष्टा, मुख्यालय, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना के पद से सेवानिवृत्ति के उपरांत श्री सिंह के विरुद्ध पूर्व से जारी विभागीय कार्यवाही को विभागीय संकल्प ज्ञापांक-6058, दिनांक-19.07.2024 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43 (बी) में सम्परिवर्तित किया गया।

6. महानिदेशक-सह-महासमादेष्टा का कार्यालय, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ, बिहार, पटना के पत्रांक-8975 दिनांक-13.12.2024 द्वारा श्री अनिल कुमार सिंह द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होने संबंधी मंतव्य प्रतिवेदित किया गया है।

7. अतएव सम्यक विचारोपरांत श्री अनिल कुमार सिंह, तत्कालीन जिला समादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी, भोजपुर अतिरिक्त प्रभार केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, बिहटा सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध गठित प्रपत्र-‘क’ की वृहद् जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है। एतद् हेतु संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, पटना प्रमंडल, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है तथा उपस्थापन पदाधिकारी नामित करने के लिए महासमादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना को प्राधिकृत किया जाता है।

उपर्युक्त कंडिका-7 में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
उपेन्द्र प्रसाद,  
सरकार के उप सचिव।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।  
बिहार गजट (असाधारण) 200-571+10-डी0टी0पी0 ।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>